



Boy



Girl

Model: Web-MatchAnalysis

कुंडली मिलान का महत्व

वैवाहिक जीवन में अनुकूलता हेतु जन्मकुण्डली मिलान किया जाता है।

इसमें सर्वप्रथम अष्टकूट मिलान किया जाता है। जातक की राशि व नक्षत्र के अनुसार उसका वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशेश, गण, भकूट एवं नाडी का ज्ञान करके वर-वधू के जीवन की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का निर्णय किया जाता है। वर्ण विचार से कर्म, वश्य विचार से स्वभाव, तारा विचार से भाग्य, योनि विचार व ग्रह मैत्री विचार से पारस्परिक संबंध, गण से सामाजिकता, भकूट से जीवन में तालमेल एवं नाडी विचार से स्वास्थ्य व सतांन संबन्धी फल का विचार किया जाता है। इन सभी गुणों को क्रमशः 1 से 8 तक अंक दिये जाते हैं। इस प्रकार अष्टकूट विचार में कुल 36 गुणों का विचार किया जाता है। जिसमें कम से कम 18 गुणों का होना आवश्यक है। इससे कम गुण वाले विवाह ज्योतिषीय विधान के अनुसार अव्यवहारिक रहते हैं।

अष्टकूट मिलान के साथ मांगलिक दोष का विचार भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि मंगल लग्न कुंडली में 1,4,7,8 एवं 12 वें भाव में स्थित हो तो मंगली दोष होता है। मंगली दोष निवारण के लिए आवश्यक है कि वर-वधू दोनों मंगली न हों या दोनों मंगली हों। शास्त्रों में इनके अलावा भी दोष निवारण के सूत्र दिए गए हैं। इस दोष के निवारण से किसी प्रकार के अमंगल की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुख व शांतिपूर्ण गुजरता है।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

पुल्लिंग : _____ लिंग _____ : स्त्रीलिंग
 01/04/1987 : _____ जन्म तिथि _____ : 30/04/1990
 बुधवार : _____ दिन _____ : सोमवार
 घंटे 10:15:00 : _____ जन्म समय _____ : 16:20:00 घंटे
 घटी 10:06:41 : _____ जन्म समय(घटी) _____ : 26:35:19 घटी
 India : _____ देश _____ : India
 Delhi : _____ स्थान _____ : Gurgaon
 28:39:00 उत्तर : _____ अक्षांश _____ : 28:27:00 उत्तर
 77:13:00 पूर्व : _____ रेखांश _____ : 77:01:00 पूर्व
 82:30:00 पूर्व : _____ मध्य रेखांश _____ : 82:30:00 पूर्व
 घंटे -00:21:08 : _____ स्थानिक संस्कार _____ : -00:21:56 घंटे
 घंटे 00:00:00 : _____ ग्रीष्म संस्कार _____ : 00:00:00 घंटे
 06:12:19 : _____ सूर्योदय _____ : 05:42:57
 18:38:35 : _____ सूर्यास्त _____ : 18:55:56
 23:40:40 : _____ चित्रपक्षीय अयनांश _____ : 23:43:31

वृष : _____ लग्न _____ : कन्या
 शुक्र : _____ लग्न लग्नाधिपति _____ : बुध
 मेष : _____ राशि _____ : मिथुन
 मंगल : _____ राशि-स्वामी _____ : बुध
 भरणी : _____ नक्षत्र _____ : पुनर्वसु
 शुक्र : _____ नक्षत्र स्वामी _____ : गुरु
 2 : _____ चरण _____ : 3
 विष्कुम्भ : _____ योग _____ : धृति
 गर : _____ करण _____ : गर
 लू-लूनेश : _____ जन्म नामाक्षर _____ : हा-हर्षा
 मेष : _____ सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____ : वृष
 क्षत्रिय : _____ वर्ण _____ : शूद्र
 चतुष्पाद : _____ वश्य _____ : मानव
 गज : _____ योनि _____ : मार्जार
 मनुष्य : _____ गण _____ : देव
 मध्य : _____ नाडी _____ : आद्य
 मृग : _____ वर्ग _____ : मेष



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
शुक्र 10वर्ष 3मा 23दि	28:04:11	वृष	लग्न	कन्या	13:00:56	गुरु 5वर्ष 6मा 11दि
राहु	17:15:17	मीन	सूर्य	मेष	16:06:45	बुध
24/07/2020	19:47:27	मेष	चंद्र	मिथु	28:43:22	11/11/2014
24/07/2038	03:18:12	वृष	मंगल	कुंभ	13:23:54	11/11/2031
राहु 06/04/2023	20:06:38	कुंभ	बुध व	मेष	21:39:52	बुध 08/04/2017
गुरु 29/08/2025	13:24:03	मीन	गुरु	मिथु	13:07:30	केतु 06/04/2018
शनि 05/07/2028	10:31:38	कुंभ	शुक्र	मीन	02:08:13	शुक्र 03/02/2021
बुध 23/01/2031	27:29:04	वृश्चि व	शनि	मक	01:35:50	सूर्य 11/12/2021
केतु 10/02/2032	17:49:18	मीन	राहु व	मक	18:19:06	चन्द्र 12/05/2023
शुक्र 10/02/2035	17:49:18	कन्या	केतु व	कर्क	18:19:06	मंगल 09/05/2024
सूर्य 05/01/2036	03:03:01	धनु	हर्ष व	धनु	15:44:58	राहु 26/11/2026
चन्द्र 06/07/2037	14:18:12	धनु	नेप व	धनु	20:47:47	गुरु 03/03/2029
मंगल 24/07/2038	15:39:45	तुला व	प्लूटो व	तुला	22:51:49	शनि 11/11/2031


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

23:40:40 चित्रपक्षीय अयनांश 23:43:31

लग्न-चलित



लग्न-चलित



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


चलित अंश

भाव मध्य	भाव संधि	भाव	भाव संधि	भाव मध्य
वृष 28:04:11	वृष 10:23:33	1 सिंह	28:03:41	कन्या 13:00:56
मिथु 22:42:55	मिथु 10:23:33	2 कन्या	28:03:41	तुला 13:06:26
कर्क 17:21:38	कर्क 05:02:16	3 तुला	28:09:12	वृश्चि 13:11:57
सिंह 12:00:22	कर्क 29:41:00	4 वृश्चि	28:14:42	धनु 13:17:27
कन्या 17:21:38	सिंह 29:41:00	5 धनु	28:14:42	मक 13:11:57
तुला 22:42:55	तुला 05:02:16	6 मक	28:09:12	कुंभ 13:06:26
वृश्चि 28:04:11	वृश्चि 10:23:33	7 कुंभ	28:03:41	मीन 13:00:56
धनु 22:42:55	धनु 10:23:33	8 मीन	28:03:41	मेष 13:06:26
मक 17:21:38	मक 05:02:16	9 मेष	28:09:12	वृष 13:11:57
कुंभ 12:00:22	मक 29:41:00	10 वृष	28:14:42	मिथु 13:17:27
मीन 17:21:38	कुंभ 29:41:00	11 मिथु	28:14:42	कर्क 13:11:57
मेष 22:42:55	मेष 05:02:16	12 कर्क	28:09:12	सिंह 13:06:26


तारा चक्र

पूर्वाषाढा	पू०फाल्गुनी	भरणी	जन्म	पुनर्वसु	विशाखा	पू०भाद्रपद
उत्तराषाढा	उ०फाल्गुनी	कृतिका	सम्पत	पुष्य	अनुराधा	उ०भाद्रपद
श्रवण	हस्त	रोहिणी	विपत	आश्लेषा	ज्येष्ठा	रेवती
धनिष्ठा	चित्रा	मृगशिरा	क्षेम	मघा	मूल	अश्विनी
शतभिषा	स्वाति	आर्द्रा	प्रत्यारि	पू०फाल्गुनी	पूर्वाषाढा	भरणी
पू०भाद्रपद	विशाखा	पुनर्वसु	साधक	उ०फाल्गुनी	उत्तराषाढा	कृतिका
उ०भाद्रपद	अनुराधा	पुष्य	वध	हस्त	श्रवण	रोहिणी
रेवती	ज्येष्ठा	आश्लेषा	मित्र	चित्रा	धनिष्ठा	मृगशिरा
अश्विनी	मूल	मघा	अतिमित्र	स्वाति	शतभिषा	आर्द्रा

चलित कुंडली



चलित कुंडली




HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918


Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


चन्द्र कुंडली




चन्द्र कुंडली




सूर्य कुंडली




सूर्य कुंडली



नवमांश कुंडली



नवमांश कुंडली



HoroscopeCart


Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

षोडशवर्ग चक्र

वर्गीय कुंडलियां लग्न कुंडली का विस्तार होती हैं। प्रत्येक कुंडली का एक विशेष लक्ष्य होता है, जैसा कि निम्न कुंडलियों के साथ वर्णन किया गया है। विस्तृत रूप से यह जानने के लिए कि ये कुंडलियां कौन से विषय का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनका अध्ययन मूल लग्न कुंडली के साथ किया जाना चाहिए। बहरहाल, ये कुंडलियां विशेष सावधानी से देखी जानी चाहिए, क्योंकि यहां ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। सामान्यतः ग्रह का आचरण उस राशि या भाव तक सीमित रहता है जिनमें वे इन वर्गीय कुंडलियों में स्थित हैं।



HoroscopeCart


Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


षोडशवर्ग चक्र

द्रेष्काण कुंडली




भातृसौख्यम

द्रेष्काण कुंडली




भातृसौख्यम

चतुर्थाश कुंडली




भाग्यविचारः

चतुर्थाश कुंडली




भाग्यविचारः

सप्तमांश कुंडली



पुत्रपौत्रादिज्ञानम्

सप्तमांश कुंडली



पुत्रपौत्रादिज्ञानम्



HoroscopeCart


Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


षोडशवर्ग चक्र

नवमांश कुंडली




कलत्र सौख्यम

नवमांश कुंडली




कलत्र सौख्यम

दशमांश कुंडली




राज्यविचारः

दशमांश कुंडली




राज्यविचारः

द्वादशांश कुंडली



पितृसौख्यम

द्वादशांश कुंडली



पितृसौख्यम



HoroscopeCart


Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


षोडशवर्ग चक्र

षोडशांश कुंडली




वाहनसुखविचारः

त्रिंशांश कुंडली




अरिष्टज्ञानम्

षष्ट्यंश कुंडली




सर्वास्थितिविचारः

षोडशांश कुंडली




वाहनसुखविचारः

त्रिंशांश कुंडली



अरिष्टज्ञानम्

षष्ट्यंश कुंडली



सर्वास्थितिविचारः



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

अष्टकवर्ग सारिणी

सर्वाष्टकवर्ग

29	32	24	21	28
4	3	2	1	12
	26		33	
	5		11	
26	6	8	10	32
	7	23	9	
	30		33	

सर्वाष्टकवर्ग

37	23	28	27	27
8	7	6	5	4
	28		26	
	9		3	
29	10	12	2	22
	11	24	1	
	34		32	

Boy

	मे	वृ	मि	कं	सि	कं	वु	वृशि	घ	म	कुं	मी	कुल
शनि	3	1	2	5	2	5	4	1	3	5	4	4	39
गुरु	3	6	6	2	3	3	7	5	6	4	4	7	56
मंगल	1	4	4	5	4	3	1	2	5	3	5	2	39
सूर्य	3	2	5	5	5	3	3	5	4	6	4	3	48
शुक्र	4	3	5	6	4	3	5	3	5	5	4	5	52
बुध	2	5	5	4	5	3	4	5	5	5	8	3	54
चंद्र	5	3	5	2	3	6	6	2	5	4	4	4	49
बिन्दु	21	24	32	29	26	26	30	23	33	32	33	28	337
रेखा	35	32	24	27	30	30	26	33	23	24	23	28	335

Girl

	मे	वृ	मि	कं	सि	कं	वु	वृशि	घ	म	कुं	मी	कुल
शनि	4	3	3	3	2	2	2	7	3	4	4	2	39
गुरु	5	5	4	6	4	4	3	3	8	5	5	4	56
मंगल	3	2	3	2	6	5	2	5	1	3	5	2	39
सूर्य	4	2	2	3	6	4	4	6	4	3	7	3	48
शुक्र	6	5	3	4	3	4	6	4	4	5	4	4	52
बुध	6	3	3	4	4	6	4	5	4	5	5	5	54
चंद्र	4	2	8	5	2	3	2	7	4	4	4	4	49
बिन्दु	32	22	26	27	27	28	23	37	28	29	34	24	337
रेखा	24	34	30	29	29	28	33	19	28	27	22	32	335

शोध्य पिंड - Boy

	सूर्य	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
राशि पिंड	92	75	156	149	135	61	125
ग्रह पिंड	22	40	56	74	114	30	74
शोध्य पिंड	114	115	212	223	249	91	199

शोध्य पिंड - Girl

	सूर्य	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
राशि पिंड	128	124	128	80	103	70	101
ग्रह पिंड	45	136	64	53	53	43	61
शोध्य पिंड	173	260	192	133	156	113	162



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

विंशोत्तरी दशा

शुक्र 10 वर्ष 3 मास 23 दिन

गुरु 5 वर्ष 6 मास 11 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
01/04/1987	24/07/1997	24/07/2003	30/04/1990	11/11/1995	11/11/2014
24/07/1997	24/07/2003	24/07/2013	11/11/1995	11/11/2014	11/11/2031
00/00/0000	सूर्य 11/11/1997	चंद्र 24/05/2004	00/00/0000	शनि 14/11/1998	बुध 08/04/2017
00/00/0000	चंद्र 12/05/1998	मंगल 23/12/2004	00/00/0000	बुध 24/07/2001	केतु 06/04/2018
00/00/0000	मंगल 17/09/1998	राहु 24/06/2006	00/00/0000	केतु 02/09/2002	शुक्र 03/02/2021
01/04/1987	राहु 12/08/1999	गुरु 24/10/2007	30/04/1990	शुक्र 01/11/2005	सूर्य 11/12/2021
राहु 23/09/1987	गुरु 30/05/2000	शनि 24/05/2009	शुक्र 24/05/1990	सूर्य 14/10/2006	चंद्र 12/05/2023
गुरु 24/05/1990	शनि 12/05/2001	बुध 24/10/2010	सूर्य 12/03/1991	चंद्र 15/05/2008	मंगल 09/05/2024
शनि 24/07/1993	बुध 18/03/2002	केतु 25/05/2011	चंद्र 11/07/1992	मंगल 23/06/2009	राहु 26/11/2026
बुध 24/05/1996	केतु 24/07/2002	शुक्र 22/01/2013	मंगल 17/06/1993	राहु 29/04/2012	गुरु 03/03/2029
केतु 24/07/1997	शुक्र 24/07/2003	सूर्य 24/07/2013	राहु 11/11/1995	गुरु 11/11/2014	शनि 11/11/2031
मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
24/07/2013	24/07/2020	24/07/2038	11/11/2031	11/11/2038	11/11/2058
24/07/2020	24/07/2038	24/07/2054	11/11/2038	11/11/2058	10/11/2064
मंगल 20/12/2013	राहु 06/04/2023	गुरु 10/09/2040	केतु 08/04/2032	शुक्र 12/03/2042	सूर्य 28/02/2059
राहु 08/01/2015	गुरु 29/08/2025	शनि 25/03/2043	शुक्र 08/06/2033	सूर्य 12/03/2043	चंद्र 30/08/2059
गुरु 15/12/2015	शनि 05/07/2028	बुध 30/06/2045	सूर्य 14/10/2033	चंद्र 10/11/2044	मंगल 05/01/2060
शनि 22/01/2017	बुध 23/01/2031	केतु 06/06/2046	चंद्र 15/05/2034	मंगल 10/01/2046	राहु 28/11/2060
बुध 20/01/2018	केतु 10/02/2032	शुक्र 04/02/2049	मंगल 11/10/2034	राहु 10/01/2049	गुरु 17/09/2061
केतु 18/06/2018	शुक्र 10/02/2035	सूर्य 23/11/2049	राहु 30/10/2035	गुरु 11/09/2051	शनि 30/08/2062
शुक्र 18/08/2019	सूर्य 05/01/2036	चंद्र 25/03/2051	गुरु 05/10/2036	शनि 11/11/2054	बुध 06/07/2063
सूर्य 24/12/2019	चंद्र 06/07/2037	मंगल 29/02/2052	शनि 13/11/2037	बुध 11/09/2057	केतु 11/11/2063
चंद्र 24/07/2020	मंगल 24/07/2038	राहु 24/07/2054	बुध 11/11/2038	केतु 11/11/2058	शुक्र 10/11/2064
शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष
24/07/2054	24/07/2073	24/07/2090	10/11/2064	11/11/2074	10/11/2081
24/07/2073	24/07/2090	24/07/2097	11/11/2074	10/11/2081	11/11/2099
शनि 27/07/2057	बुध 21/12/2075	केतु 20/12/2090	चंद्र 11/09/2065	मंगल 09/04/2075	राहु 24/07/2084
बुध 05/04/2060	केतु 17/12/2076	शुक्र 19/02/2092	मंगल 12/04/2066	राहु 26/04/2076	गुरु 17/12/2086
केतु 15/05/2061	शुक्र 18/10/2079	सूर्य 26/06/2092	राहु 12/10/2067	गुरु 02/04/2077	शनि 23/10/2089
शुक्र 15/07/2064	सूर्य 23/08/2080	चंद्र 25/01/2093	गुरु 10/02/2069	शनि 12/05/2078	बुध 12/05/2092
सूर्य 27/06/2065	चंद्र 23/01/2082	मंगल 24/06/2093	शनि 11/09/2070	बुध 09/05/2079	केतु 30/05/2093
चंद्र 26/01/2067	मंगल 20/01/2083	राहु 12/07/2094	बुध 10/02/2072	केतु 05/10/2079	शुक्र 30/05/2096
मंगल 06/03/2068	राहु 08/08/2085	गुरु 18/06/2095	केतु 10/09/2072	शुक्र 05/12/2080	सूर्य 24/04/2097
राहु 11/01/2071	गुरु 14/11/2087	शनि 27/07/2096	शुक्र 12/05/2074	सूर्य 11/04/2081	चंद्र 23/10/2098
गुरु 24/07/2073	शनि 24/07/2090	बुध 24/07/2097	सूर्य 11/11/2074	चंद्र 10/11/2081	मंगल 11/11/2099



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

राहु - गुरु	राहु - शनि	राहु - बुध	बुध - राहु	बुध - गुरु	बुध - शनि
06/04/2023	29/08/2025	05/07/2028	09/05/2024	26/11/2026	03/03/2029
29/08/2025	05/07/2028	23/01/2031	26/11/2026	03/03/2029	11/11/2031
गुरु 01/08/2023	शनि 10/02/2026	बुध 14/11/2028	राहु 25/09/2024	गुरु 16/03/2027	शनि 05/08/2029
शनि 18/12/2023	बुध 08/07/2026	केतु 08/01/2029	गुरु 27/01/2025	शनि 25/07/2027	बुध 23/12/2029
बुध 20/04/2024	केतु 06/09/2026	शुक्र 12/06/2029	शनि 24/06/2025	बुध 20/11/2027	केतु 18/02/2030
केतु 10/06/2024	शुक्र 27/02/2027	सूर्य 29/07/2029	बुध 03/11/2025	केतु 07/01/2028	शुक्र 01/08/2030
शुक्र 03/11/2024	सूर्य 20/04/2027	चंद्र 14/10/2029	केतु 27/12/2025	शुक्र 24/05/2028	सूर्य 19/09/2030
सूर्य 17/12/2024	चंद्र 16/07/2027	मंगल 07/12/2029	शुक्र 31/05/2026	सूर्य 04/07/2028	चंद्र 10/12/2030
चंद्र 28/02/2025	मंगल 15/09/2027	राहु 26/04/2030	सूर्य 17/07/2026	चंद्र 11/09/2028	मंगल 05/02/2031
मंगल 20/04/2025	राहु 18/02/2028	गुरु 28/08/2030	चंद्र 03/10/2026	मंगल 30/10/2028	राहु 03/07/2031
राहु 29/08/2025	गुरु 05/07/2028	शनि 23/01/2031	मंगल 26/11/2026	राहु 03/03/2029	गुरु 11/11/2031
राहु - केतु	राहु - शुक्र	राहु - सूर्य	केतु - केतु	केतु - शुक्र	केतु - सूर्य
23/01/2031	10/02/2032	10/02/2035	11/11/2031	08/04/2032	08/06/2033
10/02/2032	10/02/2035	05/01/2036	08/04/2032	08/06/2033	14/10/2033
केतु 14/02/2031	शुक्र 11/08/2032	सूर्य 27/02/2035	केतु 20/11/2031	शुक्र 18/06/2032	सूर्य 15/06/2033
शुक्र 19/04/2031	सूर्य 05/10/2032	चंद्र 26/03/2035	शुक्र 15/12/2031	सूर्य 09/07/2032	चंद्र 25/06/2033
सूर्य 08/05/2031	चंद्र 04/01/2033	मंगल 14/04/2035	सूर्य 22/12/2031	चंद्र 14/08/2032	मंगल 03/07/2033
चंद्र 09/06/2031	मंगल 09/03/2033	राहु 02/06/2035	चंद्र 03/01/2032	मंगल 08/09/2032	राहु 22/07/2033
मंगल 02/07/2031	राहु 20/08/2033	गुरु 16/07/2035	मंगल 12/01/2032	राहु 11/11/2032	गुरु 08/08/2033
राहु 28/08/2031	गुरु 13/01/2034	शनि 06/09/2035	राहु 03/02/2032	गुरु 07/01/2033	शनि 28/08/2033
गुरु 18/10/2031	शनि 06/07/2034	बुध 23/10/2035	गुरु 23/02/2032	शनि 15/03/2033	बुध 15/09/2033
शनि 18/12/2031	बुध 08/12/2034	केतु 11/11/2035	शनि 18/03/2032	बुध 14/05/2033	केतु 23/09/2033
बुध 10/02/2032	केतु 10/02/2035	शुक्र 05/01/2036	बुध 08/04/2032	केतु 08/06/2033	शुक्र 14/10/2033
राहु - चंद्र	राहु - मंगल	गुरु - गुरु	केतु - चंद्र	केतु - मंगल	केतु - राहु
05/01/2036	06/07/2037	24/07/2038	14/10/2033	15/05/2034	11/10/2034
06/07/2037	24/07/2038	10/09/2040	15/05/2034	11/10/2034	30/10/2035
चंद्र 19/02/2036	मंगल 28/07/2037	गुरु 05/11/2038	चंद्र 01/11/2033	मंगल 24/05/2034	राहु 08/12/2034
मंगल 22/03/2036	राहु 24/09/2037	शनि 08/03/2039	मंगल 13/11/2033	राहु 15/06/2034	गुरु 28/01/2035
राहु 13/06/2036	गुरु 14/11/2037	बुध 27/06/2039	राहु 15/12/2033	गुरु 05/07/2034	शनि 30/03/2035
गुरु 25/08/2036	शनि 13/01/2038	केतु 11/08/2039	गुरु 13/01/2034	शनि 29/07/2034	बुध 23/05/2035
शनि 19/11/2036	बुध 09/03/2038	शुक्र 19/12/2039	शनि 15/02/2034	बुध 19/08/2034	केतु 14/06/2035
बुध 05/02/2037	केतु 31/03/2038	सूर्य 27/01/2040	बुध 18/03/2034	केतु 28/08/2034	शुक्र 17/08/2035
केतु 09/03/2037	शुक्र 03/06/2038	चंद्र 01/04/2040	केतु 30/03/2034	शुक्र 21/09/2034	सूर्य 05/09/2035
शुक्र 08/06/2037	सूर्य 22/06/2038	मंगल 17/05/2040	शुक्र 04/05/2034	सूर्य 29/09/2034	चंद्र 07/10/2035
सूर्य 06/07/2037	चंद्र 24/07/2038	राहु 10/09/2040	सूर्य 15/05/2034	चंद्र 11/10/2034	मंगल 30/10/2035



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांको से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

1	मूलांक	3
3	भाग्यांक	8
1, 4, 8, 9, 3	मित्र अंक	3, 5, 7, 9, 8
5, 6	शत्रु अंक	1, 4,
19,28,37,46,55	शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शनि, बुध, शुक्र	शुभ दिन	बुध, शुक्र
शनि, बुध, शुक्र	शुभ ग्रह	बुध, शुक्र
कर्क, धनु	मित्र राशि	कन्या, कुम्भ
सिंह, मकर, मीन	मित्र लग्न	धनु, वृष, कर्क
हनुमान	अनुकूल देवता	गणेश
हीरा	शुभ रत्न	पन्ना
जरकिन, ओपल	शुभ उपरत्न	संगपन्ना, मरगज
नीलम	भाग्य रत्न	हीरा
रजत	शुभ धातु	कांसा
रजत	शुभ रंग	हरित
दक्षिणपूर्व	शुभ दिशा	उत्तर
सूर्योदय	शुभ समय	सूर्योदय के बाद
मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन	दान पदार्थ	हाथी दौत, कपूर, फल
चावल	दान अन्न	मूँग
दूध	दान द्रव्य	घी



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

रत्न चयन

किसी भी कुंडली में दशानुसार ग्रह का उपाय एवं रत्न धारण करने से शुभत्व में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक रूप से विशिष्ट ग्रह का मंत्रोच्चारण करने से उस ग्रह की रश्मियों की मानव शरीर के चारों ओर सुरक्षा श्रृंखला बन जाती है एवं रत्न रश्मियों को सोखकर मानव शरीर में प्रवाहित कर शुभत्व में वृद्धि करता है। अतः रत्न का बेदाग होना एवं शरीर से स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

सामान्यतया उपाय ग्रह दशा के फल की वृद्धि के लिए महादशा स्वामी का किया जाता है। उपाय में मंत्रोच्चारण, दान एवं व्रत ही प्रमुख हैं। रत्न निर्बल परंतु लग्नेश, भाग्येश या योगकारक ग्रहों का पहना जाता है। आपको कब कौन सा उपाय या रत्न धारण करना चाहिए नीचे तालिका में उसके कार्यसिद्धि क्षेत्र सहित दिया गया है। महादशाओं में रत्नों के तीन-तीन विकल्प दिए गए हैं। आपको कोई भी विकल्प उसकी कार्यसिद्धि क्षेत्र एवं क्षमता देखकर अपनी आवश्यकतानुसार पहन सकते हैं तथा अतिरिक्त उपाय भी अपनी क्षमतानुसार कर सकते हैं।

Boy

जीवन रत्न:
भाग्य रत्न:
कारक रत्न:
शुभ उपरत्न:

हीरा
नीलम
पन्ना
लहसुनिया

व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य, शत्रु व रोग मुक्ति
दम्पति, भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
व्यावसायिक उन्नति, धन, सन्तति सुख
सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति

Girl

जीवन रत्न:
भाग्य रत्न:
कारक रत्न:
शुभ उपरत्न:

पन्ना
हीरा
नीलम
गोमेद

दुर्घटना से बचाव, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
दम्पति, भाग्योदय, धन
सन्तति सुख, शत्रु व रोग मुक्ति
सन्तति सुख

रत्न	ग्रह	रत्ती	धातु	अंगुली	दिन	समय	नक्षत्र
माणिक्य	सूर्य	4	सोना	अना	रविवार	सुबह	कृतिका, उ०फाल्गुनी, उत्तराषाढा
मोती	चन्द्र	4	चांदी	कनि	सोमवार	सुबह	रोहिणी, हस्त, श्रवण
मूंगा	मंगल	6	चांदी	अना	मंगलवार	सुबह	मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा
पन्ना	बुध	4	सोना	कनि	बुधवार	सुबह	आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती
पुखराज	गुरु	4	सोना	तर्जन	गुरुवार	सुबह	पुनर्वसु, विशाखा, पू०भाद्रपद
हीरा	शुक्र	1	प्लेटि	कनि	शुक्रवार	सुबह	भरणी, पू०फाल्गुनी, पूर्वाषाढा
नीलम	शनि	4	पंचधातु	मध्य	शनिवार	शाम	पुष्य, अनुराधा, उ०भाद्रपद
गोमेद	राहु	5	अष्टधातु	मध्य	शनिवार	रात्रि	आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा
लहसुनिया	केतु	6	चांदी	अना	गुरुवार	रात्रि	अश्विनी, मघा, मूल



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/03/1987-16/12/1987
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	10/08/1995-16/04/1998
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	16/04/1998-05/06/2000
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	05/06/2000-22/07/2002
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	05/09/2004-01/11/2006

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-19/01/2017
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/03/2025-26/10/2027
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/10/2027-11/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	11/04/2030-25/05/2032
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	06/07/2034-20/08/2036

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/12/2043-29/11/2046
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	09/09/2054-01/04/2057
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	01/04/2057-22/05/2059
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	22/05/2059-05/07/2061
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	15/02/2064-03/10/2065

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	अशुभ	दाम्पत्य कलह
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	धनार्जन
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	व्यय
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	स्वास्थ्य
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	अशुभ	पराक्रम हानि

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	30/04/1990-06/03/1993
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	05/06/2000-22/07/2002
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	22/07/2002-05/09/2004
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	05/09/2004-01/11/2006
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	09/09/2009-15/11/2011

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	18/01/2020-21/07/2022
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/04/2030-25/05/2032
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	25/05/2032-06/07/2034
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/07/2034-20/08/2036
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/06/2039-06/03/2041

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	20/07/2049-17/02/2052
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	22/05/2059-05/07/2061
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/07/2061-15/02/2064
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	15/02/2064-03/10/2065
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	21/08/2068-25/10/2070

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	सन्तति सुख
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	भाग्योदय
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	सम	व्यावसाय
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	अशुभ	अल्प बचत
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	स्वास्थ्य



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरघः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड़, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

Boy

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

Girl

आपकी जन्मकुण्डली में पद्म नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। इसके कारण जातक के विद्याध्ययन में थोड़ा बहुत व्यवधान उपस्थित होता है। परन्तु कालान्तर में वह व्यवधान समाप्त हो जाता है। सन्तान प्रायः विलम्ब से प्राप्त होती है या उसको होने में आंशिक रूप से व्यवधान उपस्थित होता है। पुत्र सन्तान की प्रायः चिन्ता बनी रहती है। जातक का स्वास्थ्य कभी असामान्य हो जाता है।

इस योग के कारण दाम्पत्य जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय हो जाता है। परिवार में जातक को अपयश मिलने का भय बना रहता है और जातक के मित्रगण स्वार्थी होते हैं और वे सब जातक का पतन कराने में सहायक होते हैं। कभी जातक को तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

इस योग के प्रभाव से जातक के गुप्त शत्रु रहते हैं। वे सब थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लाभ मार्ग में आंशिक बाधा उत्पन्न होती है एवं चिन्ता कष्ट के कारण जीवन संघर्षमय बना रहता है। जातक द्वारा संग्रहीत सम्पत्ति को प्रायः दूसरे लोग हरण कर लेते हैं। जातक को कभी रोग व्याधि भी घेर लेती है और रोग व्याधि में अधिक धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक संकट जातक के ऊपर उपस्थित हो जाता है तथा जातक वृद्धावस्था को लेकर चिन्तित रहता है एवं कभी-कभी जातक के मन में सन्यास ग्रहण करने की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जातक के जीवन में कई सफलता मिलती हैं।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918


Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	क्षत्रिय	शूद्र	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	चतुष्पाद	मानव	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	प्रत्यारि	साधक	3	1.50	--	भाग्य
योनि	गज	मार्जार	4	2.00	--	यौन विचार
मैत्री	मंगल	बुध	5	0.50	--	आपसी सम्बन्ध
गण	मनुष्य	देव	6	5.00	--	सामाजिकता
भकूट	मेष	मिथुन	7	7.00	--	जीवन शैली
नाड़ी	मध्य	आद्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	26.00		

कुल : 26 / 36



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

अष्टकूट मिलान

Boy का वर्ग मृग है तथा Girl का वर्ग मेष है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।
अष्टकूट मिलान के अनुसार Boy और Girl का मिलान अत्युत्तम है।

मंगलीक दोष मिलान

Boy मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।

Girl मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में षष्ठ भाव में स्थित है।

**त्रिषट् एकादशे राहू त्रिषट् एकादशे शनिः ।
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत् ।।**

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि मंगल Girl की कुण्डली में षष्ठ भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

Boy तथा Girl में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

मेलापक फलित

स्वभाव

Boy की जन्म राशि अग्नि तत्व युक्त मेष है तथा Girl की वायु तत्व युक्त मिथुन राशि है। अग्नि और वायु के परस्पर सम्बन्ध मित्रता के हैं अतः इन दोनों में भी सामान्यतया शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर समानता रहेगी तथा सामान्य मतभेदों के बावजूद जीवन में खुशी एवं प्रसन्नता प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे।

Boy का राशि स्वामी मंगल तथा Girl का राशि स्वामी बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। यह ग्रह स्थिति दाम्पत्य सुख के लिए विशेष अनुकूल नहीं है। अतः जीवन में विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों का इनको सामना करना पड़ेगा तथा अवसरानुकूल एक दूसरे के प्रति भी वैमनस्य का भाव रखेंगे जिससे जीवन में अनावश्यक अशांति तथा परेशानियां रहेंगी। अतः एक दूसरे की भावनाओं को समयानुसार आदर प्रदान करके ही आप उपरोक्त समस्याओं को कम कर सकते हैं।

Boy की राशि Girl की राशि से एकादश तथा Boy की Girl से तृतीय भाव में पड़ती है यह शुभ भकूट है। इसके प्रभाव से आपकी परस्पर प्रेम एवं स्नेह की भावना में वृद्धि होगी तथा एक दूसरे को समझने में सफलता प्राप्त करेंगे जिससे वैवाहिक जीवन में किंचित सुख एवं शांति की अनुभूति कर सकते हैं। साथ ही आर्थिक एवं अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग करने में भी समर्थ रहेंगे।

Boy का वश्य चतुष्पद है तथा Girl का मानव। इसके प्रभाव से आपकी स्वाभाविक अभिरुचियों में स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर होगा तथा वैवाहिक जीवन में स्नेह एवं सुख में ईर्ष्या के भाव की भी उत्पत्ति होने की संभावना रहेगी। यदि Boy, Girl की स्वतंत्र प्रेम प्रवृत्ति को समझ सकें तथा Girl भी Boy की काम भावनाओं का आदर करें तो इनका जीवन सुखमय हो सकता है।

Boy का वर्ण क्षत्रिय है जिससे वह साहसी एवं पराक्रमी पुरुष होंगे तथा Girl का वर्ण शूद्र है इसके प्रभाव से वह कर्तव्य परायण होगी तथा किसी भी प्रकार के कार्य में विशेष रुचि का प्रदर्शन करके उसे करने में तत्पर हो जाएंगी।

धन

Boy और Girl की तारा एक दूसरे के लिए सम रहेगी। अतः आर्थिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा तथा सामान्य रूप से धन एवं लाभ अर्जित करने में दोनों समर्थ होंगे। Boy और Girl की राशि तृतीय एवं एकादश भाव में पड़ती है। यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से उनकी आय में नित्य वृद्धि होगी जिससे अर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी। साथ ही मंगल का प्रभाव भी सम रहेगा। अतः धनार्जन होता रहेगा।

Girl एक सौभाग्यशाली महिला होंगी अतः उन्हें अचानक धन प्राप्ति की पूर्ण



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

संभावना होगी। यह लाटरी या सटटे या किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। साथ ही पैतृक सम्पति या जायदाद भी उनको मिलेगी जिससे दम्पति धन एवं ऐश्वर्य से युक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

स्वास्थ्य

Boy की नाड़ी मध्य तथा Girl की नाड़ी आद्य है। अतः अलग अलग नाड़ियों में जन्म होने के कारण इनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा तथा गंभीर समस्याओं से ये सुरक्षित रहेंगे परन्तु Girl के स्वास्थ्य पर मंगल का अशुभ प्रभाव विद्यमान होगा। इसके प्रभाव से वे रक्त या पित संबंधी रोगों से समय समय पर कष्ट की प्राप्ति करेंगी। साथ ही गुप्त या धातु संबंधी रोगों से भी उनको जीवन में यदा कदा परेशानी की अनुभूति हो सकती है। अतः मंगल के इस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हनुमानजी की उपासना करनी चाहिए तथा मंगलवार के उपवास रखने चाहिए। इससे उपरोक्त समस्याओं में न्यूनता आएगी।

संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Boy और Girl का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त Boy और Girl के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Girl के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Girl को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Girl को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Boy और Girl सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Boy और Girl का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

ससुराल-सुश्री

Girl के सास से प्रायः अच्छे संबंध रहेंगे। यद्यपि उनकी सास अन्य जनों के मामलों में कम ही हस्तक्षेप करने वाली महिला होंगी तथापि उनके कुछ सिद्धांत Girl के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं। साथ ही इन दोनों के मध्य कोई विशेष समस्या या मतभेद नहीं रहेंगे।

Girl अपने कुशल व्यवहार मधुर वाणी एवं सेवा भाव से ससुर को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही ननद एवं देवरों के साथ भी उनके संबंध मित्रता



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

पूर्ण रहेंगे तथा उनको पूर्ण सहयोग एवं स्नेह प्रदान करेंगी। अतः उनका दिल जीतने में सफल रहेंगी।

इस प्रकार Girl के प्रति उनके सास ससुर का दृष्टिकोण आत्मयीता से पूर्ण रहेगा तथा घर में उसे पूर्ण सुख सुविधा तथा स्नेह प्रदान करेंगे।

ससुराल-श्री

Boy के अपनी सास से मधुर संबंध रहेंगे तथा आपसी सामंजस्य से इसमें निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। सास को Boy अपनी माता के समान आदर प्रदान करेंगे तथा उनकी सेवा तथा सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगे। साथ ही समय समय पर सपत्नीक उनके यहां मिलने जाया करेंगे जिससे संबंधों की प्रगाढ़ता में वृद्धि होगी।

ससुर के साथ भी Boy के संबंधों में मधुरता रहेगी। साथ ही उन का भी इनके प्रति विशेष वात्सल्य रहेगा। व्यक्तिगत मामलों तथा आपसी संबंधों में मित्रता का भाव भी दृष्टिगोचर होगा जिससे एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होता रहेगा। साथ ही साली एवं सालों से भी संबंधों में मित्रता सहानुभूति तथा सहयोग का भाव रहेगा तथा एक दूसरे से औपचारिक संबंध रहेंगे।

इस प्रकार ससुराल के लोगों का दृष्टिकोण Boy के प्रति सम्मानीय रहेगा तथा वे उनके व्यवहार से प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

अंक ज्योतिष फल

Boy

आपका जन्म दिनांक एक होने से आपका मूलांक एक होता है। मूलांक एक के प्रभाववश आप एक स्थिर विचारधारा के व्यक्ति होंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहेंगे। जीवन में आप जब भी किसी को वचन इत्यादि देंगे उन्हें निभाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ रहेगी एवं आप अपने मन संबंधों में, मित्रता के संबंधों में स्थायित्व रहेगा। लम्बे समय तक जो भी विचार बना लेंगे उनका पालन करने की निरंतर कोशिश करेंगे। आपके प्रेम एवं स्थायी बनें रहेंगे। यदि किसी कारणवश आपका किसी से विवाद या शत्रुता होती है तो ऐसी स्थिति में शत्रु या विवादित व्यक्ति से भी आपका मन मुटाव दीर्घकाल तक बना रहेगा।

मानसिक स्थिति आपकी स्वतंत्र विचारधारा की होने से आप पराधीन रहकर कार्य करने में असुविधा महसूस करेंगे। आप किसी के अनुशासन में कार्य करने की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से कार्य करना अधिक पसंद करेंगे। आपकी निरंतर कोशिश एवं महत्वाकांक्षा रहेगी कि आप जो भी कार्य करें वह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, उस कार्य में किसी का भी हस्तक्षेप आपको मंजूर नहीं होगा।

मूलांक एक का स्वामी सूर्य ग्रह होने के कारण सूर्य से संबंधित गुण कमोवेश मात्रा में आपके अंदर मौजूद रहेंगे। इसके प्रभाववश दूसरों का उपकार, उपचार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में आप सूर्य के समान ही प्रकाशित होना पसंद करेंगे। सामाजिक संगठनों में मुखिया का पद पाने की आपकी चाहत बनी रहेगी। जोकि आप अपनी मेहनत एवं लगन से प्राप्त करेंगे।

Girl

आपका जन्म दिनांक 30 है। तीन एवं शून्य का योग तीन आपका मूलांक होता है। मूलांक तीन का स्वामी बृहस्पति ग्रह को माना गया है। शून्य शिव है, अखण्ड ब्रह्माण्ड का द्योतक है।

मूलांक तीन के स्वामी बृहस्पति के प्रभाव वश आप एक अनुशासन प्रिय तथा कठोर महिला के रूप में चर्चित रहेंगी। आपकी स्वयं अनुशासन में रहने की इच्छा रहेगी और यही अपेक्षा दूसरों से करेंगी। मातहतों के साथ आपकी कार्यशैली कठोर रहेगी। इससे आपको अधीनस्थों के विरोध, आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। आपका रुझान ज्ञान की ओर होने से आप विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफल रहेंगी। बौद्धिक स्तर के कार्य आप भलीभाँति संपादित करेंगी। कार्यों में आपकी मौलिकता झलकेगी। आपकी मुखिया बनने की महत्वाकांक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहेगी और दूसरों पर शासन करने में निपुण रहेंगी। धर्मक्षेत्र, कार्यक्षेत्र, समाजसेवा इत्यादि के कार्यों में आपको ख्याति प्राप्त होगी।

तर्क, ज्ञान शक्ति आपमें होने से आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगी तथा इसकी



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

छाया आपके कार्यों में दृष्टि गोचर होगी। आप सामाजिक भलाई के कार्यों में रुचि लेंगी एवं कभी-भी किसी का अहित नहीं करेंगी। शून्य प्रभाववश आप शान्त, कोमल हृदय की, वाणी से मधुर, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली, धर्म-कर्म के क्षेत्र में अग्रण्य महिला के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी।

Boy

भाग्यांक तीन का अधिष्ठाता बृहस्पति ग्रह को माना गया है। इसको गुरु भी कहते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाववश आप धार्मिक, दानी, उदार, सच्चरित्र, ज्ञानी, विद्वान, परोपकारी, शान्त स्वभाव, सत्य पर आचरण करने वाले व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। अनुशासन में रहना एवं दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा करना आपका प्रमुख गुण रहेगा। आप अपने अधिनस्थों से अधिकांश कार्य अपने बुद्धि कौशल से निकलवाने में सिद्धहस्त होंगे।

सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में आपकी रुचि रहेगी एवं आवश्यकता के समय समाज सेवा के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। धर्म-कर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। गुरु धन-सम्पदा का दाता ग्रह है। अतः गुरु के प्रभाव से अपने कर्मक्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सम्पदा एकत्रित करेंगे। भूमि, वाहन, सम्पत्ति का अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लेंगे और ऐसा कार्य करना पसन्द करेंगे जिनमें आपके अनुभव, ज्ञान का भरपूर उपयोग होता है। और आपको पूर्ण सम्मान, यश धन इत्यादि मिले।

Girl

भाग्यांक आठ का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। शनि ग्रह अति धीमा होने से तीस वर्ष में एक राशिपथ भ्रमणचक्र पूर्ण करता है। इसके प्रभाव से आपका भाग्योदय भी धीरे-धीरे होगा। आप भले ही कितनी भी गरीबी में उत्पन्न हुई हों आपका भाग्य सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जायेगा। इस मध्य रुकावटें भी आयेंगी, जिन्हें आप धैर्य एवं अपने श्रम से पार कर लेंगी। आलस्य एवं निराशा आपकी तरक्की की बाधाएँ रहेंगी। इन पर विजय प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करेंगी। आपकी सभी सफलताएँ विधनों से युक्त होते हुये भी आप आसानी से अपनी तरक्की के रास्ते स्वयं निर्मित कर लेंगी। आपका भाग्योदय 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही होगा। बचपन की अपेक्षा मध्य तथा अन्तिम अवस्था आपके भाग्योदय में विशेष सहायक होगी। अन्तिम अवस्था आपकी अच्छी रहेगी एवं धन सम्पत्ति का पूर्ण सुख प्राप्त करेंगी।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

लग्न फल

Boy

आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में वृष लग्नोदय काल में हुआ था। उस क्षण मेदिनीय क्षितिज पर कन्या नवमांश एवं मकर राशि का द्रेष्काण उदित था। फलस्वरूप इस बात का द्योतक है कि आप (जन्मकाल) बाल्यावस्था से ही निश्चित रूप से सुखी, सुलभ, स्नेहयुक्त एवं आनन्दित जीवन व्यतीत करेंगे। आप सदैव ही नारी तथा धन से युक्त रहकर आनंद प्राप्त करेंगे।

आप सफलता प्राप्त हेतु अंतिम क्षण तक सत्प्रयास करते रहेंगे मुख्यतः आप जीवन के 28 वें वर्ष के पश्चात् अपने परिश्रम को साकार कर लेंगे।

यद्यपि आप सहज स्वभाव के प्राणी हैं। आप में कुछ मुख्य गुण हैं कि आप प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। आप उतावला होकर शीघ्रता पूर्वक कोई भी निर्णय नहीं लेते बल्कि शांत चित्त हो खूब सोच विचार करने के पश्चात् अपने विवेक से दूसरा कदम उठाते हैं।

आप अपनी योजना को तुलनात्मक ढंग से विभिन्न प्रकारेण अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के संबंध में विस्तारपूर्वक अध्ययनकर कार्यरूप देते हैं। इसके पश्चात् अपनी आंकाक्षा को एकाग्रचित होकर संबंधित प्रस्ताव को समर्पित करते हैं। परंतु आप यदा-कदा स्वभाव से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं जो आपके लिए बोझ-स्वरूप दबाव पूर्ण हो सकता है। इसलिए आपको एक बार ऐसा विचार करना चाहिए कि अपनी बुनियादी गुण को त्याग कर ही अपने विषयक कार्य को सफलता के द्वार तक पहुंचा सकते हैं।

आपको शारीरिक सुख भोग के लिए सतत कठिन परिश्रम करके ही पुरस्कार स्वरूप धन, संपत्ति प्रतिष्ठा एवं आरामदायक जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप एक बार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए तों आपकी अपेक्षित धन संचय की लालशा पूरी हो जाएगी तथा बहुत अधिक धन संचय कर लेंगे। क्योंकि आप महान कृपण हैं अतः जीवन पर्यंत धन संपत्ति संचय करते रहेंगे।

आपको बहुत धनोपार्जन हेतु सुंदर एवं अनुकूल व्यवसाय आरामदायक वस्तुओं का व्यवसाय कृषि उपस्करों का व्यवसाय, वित्तीय (लेन-देन) दलाली का व्यवसाय, कलात्मक वस्तुओं का व्यवसाय, रत्नादि एवं ट्रांसपोर्ट (मालवाहक) संबंधी कार्यों के द्वारा अतिरिक्त धन उपार्जन कर सकेंगे।

आप सदैव ही विपरीत योनि के साथ आंख मिलाते रहना चाहते हैं। आप सदैव कामुकता पूर्ण आनंद प्राप्त करना पसंद करते हैं। अंततः आपके महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील जनेन्द्रिय को क्षति होने की आशंका है। अस्तु उत्तम यह है कि आप इस प्रवृत्ति का त्याग कर दें।

आप निरंतर सुखद एवं शांतिपूर्ण घरेलू जीवन व्यतीत करेंगे। यह संभाव्य है कि आप मुख्यतया अपना सर्वोत्कृष्ट जीवन साथी बनाएं।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

वृष राशीय जातक को निर्देश है कि आप अपने पति/पत्नी अथवा मित्रता के लिए उपयुक्त राशि कन्या, मकर, मीन एवं वृश्चिक राशि के जातक अनुकूल हैं। इन राशियों का योग मानवीय एवं आनंददायक होगा। आप सदैव ही अपने पारिवारिक प्रसन्नता हेतु बहुत कुछ करते रहते हैं। आप वांछनीय एवं स्वस्थ जीवन के लिए सभी वांछित वस्तुओं की व्यवस्था एवं समर्पण करते हैं।

यद्यपि आप विस्तृत सम्पत्ति के स्वामी होंगे। आप शांतचित्त हृष्ट-पुष्ट शरीर से युक्त, संवेदनशील एवं जीवन में कुछ समय के बाद हल्के रोगों की आशंका है। आप गले के संक्रमण, कफ एवं शीत प्रभाव से शरीर में फोड़ा-फुंसी, दाद खुजली एवं शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहेंगे। अस्तु समय-समय पर अपने पारिवारिक चिकित्सक से संबंधित रह कर, इन रोगों के प्रति सतर्क रहें।

सप्ताह के शुक्रवार एवं शनिवार आपके लिए अच्छा दिन है। इसके अतिरिक्त बुधवार का दिन आपके साझीदारी व्यवसाय हेतु उत्तम एवं समयोचित है। रविवार, गुरुवार सोमवार, एवं मंगलवार का दिन आपके लिए अपव्ययकारी हो सकता है।

आपके लिए अंक 2 एवं 8 अंक अनुकूल और महत्वपूर्ण है। परंतु अंक 5 आपके लिए त्याज्य है।

आपके लिए सभी रंगों में सुंदर एवं अति उत्तम रंग सफेद, हरा एवं गुलाबी रंग है। रंग लाल आपके लिए त्याज्य है।

Girl

आपका जन्म हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में कन्या लग्न के उदयकाल में हुआ था। साथ ही उस समय मेदिनीय क्षितिज पर मेष राशि का नवमांश एवं मकर राशि का द्रेष्काणा भी उदित था। जिसके प्रभाव से यह स्पष्ट हो रहा है कि आप द्विस्वाभात्मक गुणों युक्त हैं। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर धर्म मार्ग में प्रवीण हो गई हैं तथा यह सन्देहास्पद विषय है कि आप इस मार्ग के सहारे अपने लक्ष्य को सम्पादित कर सकेंगी।

आप कुप्रवृत्ति से दूसरों को सताकर धन का संचय करेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप धन की सुनिश्चितता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप किसी को भी आकर्षित कर अर्थात् प्रलोभन देकर विश्वास दे सकती हैं। आप निष्ठुर उद्दमी एवं परिश्रमी अध्यवसायी प्रवृत्ति की हैं। आप किसी को भी आकर्षित कर अर्थात् प्रलोभन देकर विश्वास दे सकती हैं और मनुष्योचित जरूरतों की पूर्ति हेतु आप कोई स्पष्ट चाल चलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पश्चाताप करोगी। आप प्रसन्नचित एवं भाग्यशाली महिला हैं। आप संसारिक सुख का आनन्द प्राप्त करेंगी। आप अच्छे हृदय से अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य में भाग लेंगी। आप सदैव ही सभी के प्रेम सहवास की आकांक्षा रखेंगी।

आप कई वर्षों तक वैवाहिक संस्कार ग्रहण नहीं करेंगी। परन्तु जब आप एक वार अपने जीवन साथी का चयन कर लेंगी तो विवाहोपरान्त उसमें जोंक की तरह चिपक जाएँगी।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

अर्थात् सदैव उसके तन-मन के साथ रहेंगी। यह सत्य है कि आप अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगी। आपके पति आपके साथ एक पति की अनिवार्य भूमिका अदा करेंगे तथा सदैव ही प्रसन्नता की बिन्दु तलाश कर आपको प्रसन्न रखेंगे। आप अपने पति के माध्यम से सदैव ही अच्छी सन्तान ग्रहण करेंगी। आपको उसके सम्बन्ध में कदापि भी उदासीन एवं चिन्तनीय दशा नहीं रहेगी। वह निश्चित रूप से आपकी सन्तान को शिक्षित कर सुविधापूर्वक जीवन को व्यवस्थित कर देंगे।

आपकी सामुद्रिक विदेश की यात्रा सभी प्रकार से मधुर मंगलमय नहीं होगी। आप स्वयं के बचाव के लिए प्रभावशाली बंधन पाल रखा है जो जीवन को अवरोधक एवं द्वन्दात्मक बना दिया है। आप निश्चित रूप से स्वतः एकाग्रतापूर्वक एकमत से विचार कर किसी भी विषय को सम्पादित करने के लिए सक्षम हैं। परन्तु सम्प्रति आपकी बुद्धि अस्थिर है। आप पुनः अव्यवस्था का प्रतिकार कर लिया है तथा आपको सुव्यवस्थित समय का लाभ प्राप्त होगा। आपकी यह विशेषता है कि आप स्वच्छन्द रहती हैं। आप अपने मस्तिष्क को विषय वस्तु की ओर प्रवृत्त कर आप पुनः उत्साह पूर्वक कार्यारम्भ करने के लिए तैयार हो जाएँ।

यदि आप अपनी स्वास्थ्य रक्षा चाहती हैं तथा युवावस्था का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। अपनी युवावस्था अर्थात् मध्यम आयु का आनन्द एवं लाभ प्राप्त करें। आप अपनी जीवन पद्धति की हासमुखी अवधारणा को बदल सकती हैं। अन्यथा आप ज्यो-ज्यो आयु पथ पर प्रौढ़ता प्राप्त करती जाएंगी। आपको मध्यपान का अनुभव प्राप्त होगा और आपको रूग्णकारी प्रभाव से प्रभावित कर देगा। वैसे आप किसी विषम रोग से आक्रान्त तो नहीं होगी। परन्तु आपको सिरोवेदना, पीठ के दर्द, ट्यूमर एवं रक्तचाप वृद्धावस्था में कष्टकर न हो। अतः सतर्कता बरतनी चाहिए। सम्प्रति आप दीर्घ जीवन व्यतीत करने के प्रति आश्वस्त रहें। आपको संभावित रोगादि के प्रति सुरक्षात्मक अभिरुचि रखना चाहिए ताकि आपका जीवन रोग मुक्त एवं सुरक्षित रहे।

आपके लिए साप्ताहिक वारों में भाग्यशाली दिन बुधवार तथा शुक्रवार है। परन्तु आपको रविवार, गुरुवार, मंगलवार एवं सोमवार के दिनों का परित्याग करना चाहिए क्योंकि ये वारों दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। शनिवार आप के लिए मध्य फलदायक है।

आपके लिए वास्तव में अंक 2, 3, 5, 6 एवं 7 अंक अनुकूल हैं तथा अंक 1 एवं 8 अंक आपके लिए त्यागनीय हैं।

आपके लिए अनुकूल एवं भाग्यशाली रंग पीला, सूआपंखी, हरा रंग है। आपके लिए रंग लाल, बल्लू एवं काला रंग प्रतिकूल है।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

Boy

आपके जन्म समय में लग्न में वृष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शुक्र है। सामान्यतया वृष लग्न में उत्पन्न मनुष्य धैर्य युक्त एवं सहनशील स्वभाव के होते हैं तथा अपने वार्तालाप में सर्वदा मधुर वाणी का उपयोग करते हैं। शारीरिक रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा परिश्रम करने की उनमें अपूर्व क्षमता विद्यमान रहती है तथा अपने परिश्रमशील स्वभाव के द्वारा वे जीवन में उन्नति तथा सफलता अर्जित करने में समर्थ होते हैं जिससे समाज में उनको मान प्रतिष्ठा तथा यश की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुखऐश्वर्य से युक्त होकर वे भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करते हैं। वे शांत स्वभाव के होते हैं परन्तु पराक्रम एवं उत्साह से पूर्ण रहते हैं।

अतः इसके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मानसिक शांति तथा सन्तुष्टि भी बनी रहेगी। आपकी वाणी मधुर होगी तथा स्ववाक्चातुर्य से आप अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ होंगे। आपका शारीरिक कद मध्यम रहेगा तथा स्वभाव में सहिष्णुता तथा उदारता का भाव विद्यमान होगा। आपके सांसारिक महत्व के कार्य यथा समय पूर्ण होंगे जिससे आपको सुखैश्वर्य की प्राप्ति होगी तथा समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

आप एक उत्साही पराक्रमी तथा परिश्रमी पुरुष होंगे तथा इनसे जीवन में इच्छित उन्नति एवं सफलताओं को अर्जित करेंगे। आप अपने श्रेष्ठ जनों को सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रखने में समर्थ होंगे। आप में विद्वता का भाव भी रहेगा तथा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में परिश्रम पूर्वक उन्नति करेंगे। साथ ही जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे।

लग्न में मंगल के प्रभाव से आप एक साहसी पराक्रमी तथा तेजस्वी पुरुष होंगे तथा यदा कदा आप क्रोध के भाव को भी प्रदर्शित करेंगे लेकिन क्रोध के भाव पर आपको यत्नपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए जिससे अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न न हों। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा सभी लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। लेकिन आपके सांसारिक महत्व के सभी कार्य पराक्रम तथा परिश्रम से सफल होंगे तथा जीवन में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने में समर्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक बुद्धिमान पुरुष होंगे तथा अपने कार्य कलापों में बुद्धिमता की छाप अवश्य छोड़ेंगे।

आपके स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा परन्तु उदारता का भी आप समय समय पर प्रदर्शन करेंगे तथा जरूरतमंद लोगों की समय समय पर सेवा एवं सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन परिश्रम एवं योग्यता से आपके उन्नति मार्ग प्रशस्त रहेंगे तथा इच्छित धन वैभव एवं सुख संसाधनों को अर्जित करने में समर्थ होंगे। स्त्री से आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा तथा पुत्र संतति से भी युक्त रहेंगे। संगीत के प्रति भी यदा कदा आप रुचि का प्रदर्शन करेंगे तथा न्यूनाधिक रूप से इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होंगे।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

इस प्रकार आप पराक्रमी तेजस्वी साहसी तथा बुद्धिमान पुरुष होंगे तथा जीवन में स्व योग्यता से सफलता अर्जित करके सुखपूर्वक समय व्यतीत करने में समर्थ होंगे।

Girl

आपके जन्म समय में लग्न में कन्या राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है। सामान्यतया कन्या लग्न में उत्पन्न जातक अध्ययनशील होते हैं तथा विभिन्न विषयों के ज्ञानार्जन में उनकी रुचि रहती है। सदगुणों से वे युक्त रहते हैं एवं भाग्यशाली भी होते हैं। उनके सांसारिक महत्व के कार्य अल्प परिश्रम के द्वारा ही भाग्यबल से सम्पन्न हो जाते हैं फलतः कार्यक्षेत्र में वे उन्नतिशील रहते हैं। उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है तथा कठिन से कठिन विषय को समझने तथा समाधान करने में वे समर्थ रहते हैं। राजनीति में यद्यपि उनकी रुचि अल्प होती है तथापि राजकार्यों में सलाहकार या सचिव अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में वे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं तथा भावुकता की इनमें न्यूनता रहती है।

अतः इसके प्रभाव से आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगी तथा अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ होंगी। अध्ययन के प्रति आपके रुचि रहेगी तथा कला लेखन मनोविज्ञान या आलोचना आदि के क्षेत्र में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। अपनी योग्यता एवं स्वभाव से जीवन में आपको सुखैश्वर्य एवं भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी। आपके बुद्धि भी तीव्र होगी एवं गूढ़ से गूढ़ समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होंगी। यदि आप नौकरी या कोई कार्य नहीं करती है तो उपरोक्त योग आपके पति पर घटित होंगे।

लग्न में बुध की राशि के प्रभाव से आपका स्वरूप सुन्दर एवं आकर्षक होगा तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रसन्न तथा स्वस्थ रहेंगी। आपकी वाणी मधुर एवं ओजस्वी होगी तथा आदर्श वक्ता के रूप में आप जानी जाएंगी। व्यावहारिक रूप से आप अत्यंत ही कुशलता का प्रदर्शन करेंगी जिससे लोग आपसे प्रभावित रहेंगी। कला एवं साहित्य के प्रति आपके विशेष रुचि होगी तथा लेखन सम्पादन आदि में भी सफलता अर्जित करेंगी। शारीरिक बल की आप में प्रचुरता रहेगी तथा परिश्रम एवं पराक्रम से जीवन में इच्छित धनवैभव एवं भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करने में सफल होंगी। साथ ही समाज एवं कार्य क्षेत्र में आप प्रतिष्ठित तथा यशस्वी महिला होंगी।

स्वभाव से आप शांत एवं उदार रहेंगी तथा समय पर अन्य जनों के उपकार करने में भी तत्पर होंगी श्रेष्ठ कार्यों को करने में आपकी हमेशा रुचि रहेगी। आप एक बुद्धिमान महिला होंगी तथा अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करेंगी एवं गूढ़ से गूढ़ विषय को भी आत्मसात करने में सफल होंगी।

धर्म के प्रति आपकी प्रबल आस्था रहेगी तथा समय समय पर श्रद्धापूर्वक धार्मिक कार्यकलापों तथा अनुष्ठानों को सम्पन्न करेंगी। अपने इन कार्यों से आपको आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। मित्र वर्ग के मध्य आप प्रिय एवं आदरणीय होंगी तथा उनसे आपको इच्छित सुख एवं सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा। इस प्रकार आप अपनी बुद्धिमता योग्यता एवं



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

पराक्रम से अपने महत्वपूर्ण कार्यकलापों को सम्पन्न करेंगी तथा उनमें इच्छित सफलता अर्जित करके शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगी।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

धन, परिवार, आंख एवं वाणी

Boy

आपके जन्म समय में द्वितीय भाव में मिथुन राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है। अतः इसके प्रभाव से आप की प्रवृत्ति धनसंग्रह करने की रहेगी तथा वर्तमान एवं भविष्य के लिए प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करके उसका संग्रह करेंगे इससे आपकी आर्थिक स्थिति सन्तुलित रहेगी। साथ ही जायदाद या स्वर्ण आदि धातुओं पर पूंजीनिवेश करेंगे तथा इससे आपको प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। आपका पारिवारिक जीवन सुख एवं शान्ति से युक्त रहेगा तथा उनकी खुशहाली के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहेंगे तथा पारिवारिक जनों से आपको पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा।

सामान्यतया आपको सभी स्वाद रुचिकर लगेंगे परन्तु मिष्ठान के प्रति विशेष रुचिशीलता का प्रदर्शन करेंगे। चूंकि यह भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसका स्वामी बुध होने के कारण आपकी वाणी मृदु तथा प्रभाव शाली रहेगी तथा अन्य जनों को अपनी वाणी से प्रभावित करने में समर्थ रहेंगे। साथ ही विचारों की अभिव्यक्ति भी कुशलता पूर्वक करेंगे परन्तु अवसरानुकूल आप अपने विचारों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि आप यह अनुभव करते हैं कि इस समय के लिए यह विचार ठीक नहीं है। आतिथ्य सत्कार की भावना भी आपके मन में विद्यमान रहेगी। इसके अतिरिक्त स्त्री वर्ग से आपको उचित लाभ समय समय पर मिलता रहेगा तथा वाहन एवं बहुमूल्य रत्नों की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही धार्मिक एवं सज्जन प्रवृत्ति के लोगों से आप सामान्यतया मित्रता करना पसन्द करेंगे।

Girl

आपके जन्म समय में द्वितीय भाव में तुला राशि उदित हुई है जिसका स्वामी शुक्र है। अतः इसके प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन सुख शान्ति एवं समृद्धि से युक्त रहेगा तथा सभी पारिवारिक जन परस्पर मिल जुलकर रहेंगे तथा एक दूसरे को अपना पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी वाणी अत्यंत ही मधुर एवं प्रभावशाली रहेगी तथा अन्य जनों को अपनी वाणी से प्रभावित करने में समर्थ रहेंगी तथा अपने वाक्चातुर्य से कई शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में भी सम्पन्न रहेंगी। इसके साथ ही प्रौढ़ावस्था में आप अल्प मात्रा में नेत्र संबंधी कष्ट की भी अनुभूति कर सकती हैं।

धर्म के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा रहेगी तथा धार्मिक तथा शुभ एवं मांगलिक कार्यों को समय समय पर सम्पन्न करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य उत्सवों की भी प्रिय होंगी तथा ऐसे उत्सवों के आयोजन भी समय समय पर होते रहेंगे। जीवन में आपको पैतृक सम्पत्ति भी अर्जित होगी। साथ ही अपने परिश्रम पराकम एवं सौभाग्य से भी वांछित मात्रा में धनऐश्वर्य एवं वैभव अर्जित करने में सफल रहेंगी। परिवार को सुख सुविधा तथा प्रसन्नता प्रदान करना आपका मूल उद्देश्य रहेगा। समाज में आप एक आदरणीया महिला होंगी तथा सौभाग्य से अपना जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करेंगी। साथ ही व्यापार संबंधी लाभ भी समय



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

समय पर होता रहेगा ।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

शिक्षा, माता, वाहन एवं जायदाद

Boy

आपके जन्म समय में चतुर्थ भाव में सिंह राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी सूर्य है। अतः इसके प्रभाव से आप जीवन में समस्त भौतिक सुख संसाधनों एवं आधुनिक विलासमय वस्तुओं से युक्त होंगे तथा सुख पूर्वक इनका उपभोग करने में समर्थ होंगे। शुक्र के प्रभाव से युवावस्था से ही आपको सुख-संसाधनों की उपलब्धि हो जायेगी तथा इसके लिए विशेष परिश्रम भी कम ही करना पड़ेगा।

जीवन में चल एवं अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को आप अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके प्रचुर मात्रा में धन सम्पत्ति की प्राप्ति होगी तथा विवाह के बाद इसमें काफी वृद्धि होगी। स्त्री के सहयोग से भी धनाढ्य एवं समृद्धशाली व्यक्ति माने जायेंगे। चल सम्पत्ति की उपेक्षा अचल सम्पत्ति की आपके पास बहुलता होगी जिससे जमीन जायदाद तथा मकान प्रमुख होंगे। साथ ही समस्त आधुनिक भौतिक एवं विलासमय उपकरणों से आप सम्पन्न होंगे तथा आनंदपूर्वक इनका उपभोग करेंगे।

उत्तम निवास स्थान के विषय में आप सौभाग्यशाली व्यक्ति समझे जायेंगे। आपका घर उत्तम एवं आधुनिक स्थान में होगा तथा सर्व प्रकार से यह आकर्षक एवं सुसज्जित रहेगा। आप भी इसकी सुन्दरता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे। आपका घर किसी अच्छी कालोनी में होगा एवं पड़ोसी भी बुद्धिमान एवं शिक्षित होंगे तथा आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली में उत्तम वाहन के भी योग बनते हैं जिसका आप युवावस्था से ही उपयोग करके प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे।

आपकी माता जी सुन्दर सुसंस्कृत एवं मृदुस्वभाव की महिला होंगी तथा उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। वह एक चतुर एवं बुद्धिमान महिला होंगी तथा अपनी चतुराई एवं व्यवहार कुशलता से परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण करेंगी एवं किसी भी व्यक्ति को उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। आपके प्रति उनके हृदय में विशेष वात्सल्य एवं स्नेह का भाव होगा तथा अवसरानुकूल उनसे आपको प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहयोग की भी प्राप्ति होती रहेगी। आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखेंगे तथा उनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर होंगे। इसके अतिरिक्त सुख-दुःख में उनको अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। इस प्रकार आपसी संबंध भी मधुर होंगे।

अध्ययन के प्रति वचन से ही आपकी रुचि होगी तथा बुद्धिमान एवं परिश्रमशील होने के कारण प्रारंभ से ही अध्ययन के क्षेत्र में अनावश्यक समस्याओं एवं बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी परिपेक्ष्य में आप स्नातक परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण करेंगे तथा इससे आप की आत्मिक शक्ति में वृद्धि होगी फलतः जीवन में इच्छित उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में समर्थ होंगे। सामाजिक जनों एवं संबंधियों में भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी तथा सभी लोग आपसे प्रसन्न एवं प्रभावित होंगे। इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा जिससे भविष्य



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

उज्ज्वल होगा।

Girl

आपके जन्म समय में चतुर्थ भाव में धनुराशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है। अतः इसके प्रभाव से आप समस्त संसारिक एवं भौतिक सुखों को अर्जित करने में सफल होंगी। आधुनिक सुख संसाधनों एवं उपकरणों से भी युक्त होंगी तथा प्रसन्नता पूर्वक इनका उपभोग करेंगी। आप एक वैभवशाली महिला होंगी तथा समाज में आपको यथोचित स्तर बना रहेगा तथा सभी लोग आपको वांछित सम्मान एवं आदर प्रदान करेंगी।

आप एक भाग्यशाली महिला होंगी तथा जीवन में आपको काफी चल एवं अचल सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त होगा। मामा के प्रभाव या सहयोग से भी आपको काफी धन सम्पत्ति मिल सकती है। आप स्वपराक्रम परिश्रम एवं बुद्धिमता से चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ होंगी। आपको चल सम्पत्ति से शीघ्र लाभ होगा अतः इसके लिए आप समयानुसार पूंजी निवेश कर सकती हैं।

आपका आवास उत्तम होगा तथा आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त रहेगा। समस्त भौतिक उपकरणों की इसमें प्रबलता रहेगी। घर की सुन्दरता का आप विशेष ध्यान रखेंगी तथा अन्य जनों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। आपका घर किसी अच्छी अच्छी कालोनी में होगा तथा पड़ोसी भी शिक्षित एवं बुद्धिमान होंगी एवं आपसी संबंधों में भी अनुकूलता होगी। इसके अतिरिक्त उत्तमवाहन से भी आप युक्त होंगी तथा युवावस्था के बाद अपने वाहन का सुख प्राप्त करेंगी।

आपकी माता जी शिक्षित, बुद्धिमान एवं हास्य प्रिय महिला होंगी तथा अपने हास्यप्रिय स्वभाव से सभी को प्रसन्न तथा प्रभावित करेंगी। परिवार का वह पूर्ण लालन-पालन करेंगी तथा अपनी ओर से किसी भी सदस्य को कोई भी कष्ट नहीं होने देंगी। परिवार में सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तथा मान-सम्मान भी प्रदान करेंगे। आपके प्रति उनका विशिष्ट स्नेह भाव होगा एवं आपकी उन्नति में उनका प्रमुख योगदान रहेगा। आपको समय समय पर उनसे वांछित आर्थिक सहयोग भी मिलता रहेगा। आप भी उनका पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं होने देंगे। इससे आपके आपसी संबंधों में मधुरता का भाव विद्यमान होगा।

लग्नेश बुध की स्थिति के प्रभाव से आप प्रारंभ से ही एक अध्ययनशील महिला होंगी तथा अपनी प्रारंभिक कक्षाओं से ही परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करेंगी। आप स्नातक परीक्षा भी अच्छे अंको से ससम्मान उत्तीर्ण करेंगी। इससे आपके मन में आत्मविश्वास के भाव की वृद्धि होगी तथा भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा। स्वजनों एवं मित्रवर्ग से आपको पूर्ण प्रोत्साहन तथा सम्मान मिलेगा। इससे अतिरिक्त आप न्याय संबंधित शिक्षा में इच्छित सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

यद्यपि आप जीवन में सामान्यतया स्वस्थ ही होंगी परंतु वृद्धावस्था में यदा कदा



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

रक्त चाप आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकती है। अतः यदि खान-पान का उचित पथ्य रखें तो ऐसी समस्याओं से आप सुरक्षित हो सकती हैं तथा सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगी।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

प्रणय सम्बन्ध, सन्तान एवं बुद्धि

Boy

आपके जन्मसमय में पंचमभाव में कन्या राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है तथा केतु भी पंचमभाव में ही स्थित है। अतः इसके प्रभाव से आप सामान्य बुद्धि के व्यक्ति होंगे तथा सामाजिक तथा अन्य कार्य कलापों को सामान्य बुद्धि से ही सम्पन्न करेंगे। आपको गंभीर समस्याओं का समाधान करने में काफी परिश्रम का सामना करना पड़ेगा। अतः यदा कदा आपको शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ेगा। वैदिक एवं धर्मशास्त्र तथा दर्शन के ग्रन्थों में आपकी अल्प रुचि होगी परंतु आधुनिक एवं पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान में अवश्य रुचि एवं अध्ययनशील होंगे तथा इनमें आप परिश्रम पूर्वक न्यूनाधिक मात्रा में सम्मान अर्जित करने में समर्थ होंगे। जिससे समाज में आपको यथोचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।

पंचमभाव में केतु की स्थिति के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में भी आपकी रुचि होगी तथा कई बार एक से अधिक प्रसंग भी आप स्थापित कर सकते हैं। आपके लिए प्रेम प्रसंगों में मर्यादा तथा आदर्श के भाव की न्यूनता होगी जिससे कई बार आपको अनावश्यक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः ऐसी प्रवृत्तियों की आपको यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

केतु की पंचमभावस्थ स्थिति के प्रभाव से आपको संतति प्राप्ति में काफी विलंब का सामना करना पड़ सकता है परंतु विलंब से ही सही संतति की प्राप्ति अवश्य होगी। आपकी संतति गुणवान, तेजस्वी एवं पराक्रमी होगी तथा जीवन में वांछित उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा तथापि अपनी आजीविका अर्जित करने में वे समर्थ होंगे। लेकिन वह हठी एवं मनमौजी प्रवृत्ति के होंगे तथा शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी मर्जी से सम्पन्न करेंगे एवं माता पिता की सलाह लेना आवश्यक नहीं समझेंगे। माता पिता का ध्यान भी वृद्धावस्था में कम ही रखेंगे। अतः बच्चों से आपको विशेष अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। माता की अपेक्षा पिता से उनका अधिक लगाव होगा तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पिता के ही माध्यम से करना पसन्द करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों की उन्नति संतोषप्रद होगी तथा आजीविका प्राप्त करने की आवश्यकता ही पूर्ण होगी तथापि वे व्यवहार कुशल होंगे। अतः धन ऐश्वर्य की उनके पास कमी नहीं होगी। जिससे उनका जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त वे स्वभाव से तेजस्वी भी होंगे अतः समय समय पर अन्य सामाजिक जनों से उनका वाद विवाद भी हो सकता है। जिससे समाज में उनके एवं आपके मान सम्मान में कमी भी आ सकती है। अतः ऐसी स्थितियों की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए तभी आपका एवं उनका जीवन सुख एवं शान्ति पूर्वक व्यतीत हो सकता है।

Girl



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

आपके जन्मसमय में पंचमभाव में मकरराशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है तथा राहु भी पंचमभाव में ही बैठा है। अतः इसके प्रभाव से आप एक बुद्धिमान महिला होंगी तथा आपके सभी कार्यों में बुद्धिमता की स्पष्ट छाप होगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न एवं प्रभावित होंगी तथा आपको यथोचित सम्मान भी प्रदान करेंगे। वैदिक साहित्य दर्शन एवं धर्म ग्रन्थों में आपकी रुचि अल्प मात्रा में ही होगी परन्तु आधुनिक, वैज्ञानिक विषयों, साहित्य एवं इतिहास जैसे प्राचीन विषयों में भी आपकी रुचि होगी तथा रुचि पूर्वक इसका अध्ययन करके ज्ञानार्जन करेंगी। पाश्चात्य साहित्य में भी आप रुचिशील होंगी तथा इसका आपको काफी ज्ञान होगा जिससे एक विदुषी के रूप में समाज में अपनी छवि स्थापित करने में समर्थ होंगी।

राहु की पंचमभाव में स्थिति के प्रभाव से प्रेम-प्रसंगों में भी आपकी रुचि होगी तथा प्रेम को मनोरंजन एवं सुख का साधन अधिक समझेंगी। यदि आप प्रेम-प्रसंग में मर्यादा एवं नैतिकता का पालन न कर सके तो इससे आपको अनावश्यक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा सामाजिक सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। अतः आपको ऐसी स्थिति की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

पंचमभाव में राहु की स्थिति के प्रभाव से आपको पुत्र संतति की प्राप्ति में विलम्ब एवं व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा परन्तु पुत्र संतति की प्राप्ति अवश्य होगी तथा कन्या संतति अधिक हो सकती है। आपकी सन्तति पराक्रमी, तेजस्वी एवं व्यवहारिक प्रवृत्ति की होगी तथा अपने इन्हीं गुणों से वे जीवन में उन्नति तथा सफलताएं अर्जित करेंगी। माता-पिता के प्रति उनके मन में यद्यपि सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होगा तथापि उनकी आज्ञापालन की वे उपेक्षा करेंगे। वे सांसारिक कार्यों के महत्व में भी माता पिता का सहयोग एवं सलाह कम ही लेंगे। लेकिन आप को उनकी इस प्रवृत्ति से परेशान नहीं होना चाहिए तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्यों को सम्पन्न करने देने चाहिए। इससे आपसी संबंधों में मधुरता होगी तथा विश्वास का भाव भी बना रहेगा। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में बच्चों से आपको विशेष अपेक्षा नहीं करनी चाहिए तथा अपने लिए प्रचुर मात्रा में धन संचित करके रखना चाहिए जिससे अनावश्यक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतति की उन्नति सन्तोष प्रद होगी तथा परिश्रम से ही वे न्यूनाधिक मात्रा में उन्नति का प्रदर्शन करेंगी यद्यपि आप अपनी ओर से उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबन्ध करेंगी तथा आधुनिक परिवेश में उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगी। उनकी प्रवृत्ति व्यावहारिक होगी तथा जीवन में उचित शिक्षा अर्जित करके आपकी चिन्ताओं में कमी करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों से भी उनका समय-समय पर वाद-विवाद होगा जिससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है परंतु आप अपने सद्व्यवहार से स्थिति को सम्भालने में समर्थ होंगी। इस प्रकार बच्चों का आपको सामान्य सुख प्राप्त होगा।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

परिवार, विवाह एवं साझेदार

Boy

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है तथा शनि भी सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है सामान्यतया वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में होने से जातक का सहयोगी धनवान पित प्रकृति एवं व्ययशील प्रवृति का मनुष्य होता है। साथ ही शनि के प्रभाव से वह उग्रस्वभाव पराक्रमी एवं साहसी होता है लेकिन चंचलता की अपेक्षा गंभीरता का भाव सर्वदा विद्यमान रहता है।

अतः इनके प्रभाव से आपकी पत्नी तेजस्वी पराक्रमी एवं बुद्धिमती महिला होगी तथा चतुराई से अपने सांसारिक कार्य कलापों को सम्पन्न करेगी। वह भौतिकतावादी एवं आधुनिक विचारों की महिला होंगी एवं पाश्चत्य शास्त्रों के अध्ययन में विशेष रुचि रखेंगी। साथ ही गंभीरता का भाव भी उनके स्वभाव में विद्यमान होगा कर्तव्य परायणता की भावना भी उनमें रहेगी तथा समाज एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में तत्पर होंगी।

आपकी पत्नी किंचित श्यामवर्ण की आकर्षक महिला होंगी तथा उनका कद ऊंचा रहेगा। शारीरिक संरचना शनि जैसे शुष्क ग्रह के प्रभाव से दुबली पतली होगी परन्तु आकर्षण विद्यमान रहेगा साथ ही अन्य अंग प्रत्यंग भी पुष्ट एवं सुडौल रहेंगे उनका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा सौन्दर्य के प्रति सतर्क रहेंगी एवं समयानुसार सौन्दर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करेंगी।

सप्तम भाव में शनि के प्रभाव से आपके विवाह में विलम्ब होगा लेकिन वैवाहिक प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो जाएगी। आपका विवाह विज्ञापन द्वारा सम्पन्न होगा एवं विशिष्ट परिस्थितियों में आप अपनी इच्छा से प्रेम विवाह भी कर सकते हैं विवाह के बाद सामान्यतया आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा परन्तु दोनों की प्रवृति स्वाभिमानी एवं तेजस्वी होने के कारण अल्प समय के लिए आपसी वाद विवाद के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है अतः यदि आप दोनों संयम एवं बुद्धिमता पूर्वक कार्य लें तो संबंधों में मधुरता हो सकती है।

आपका विवाह समृद्ध एवं धनवान परिवार से सम्पन्न होगा तथा सामाजिक रूप से भी वे प्रभावशाली रहेंगे अतः विवाह के समय दहेज के रूप में आपको पर्याप्त मात्रा में धन सम्पत्ति की प्राप्ति होगी एवं अन्य बहुमूल्य उपहार भी मिलेंगे साथ ही भविष्य में भी आर्थिक एवं नैतिक सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। सास ससुर से आपके संबंध सामान्य ही रहेंगे तथा विशिष्ट अवसरों पर ही मेल मिलाप होगा लेकिन आपसी सौहार्दता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि में शनि के प्रभाव से आपकी पत्नी का सास ससुर के प्रति विशेष सेवा की भावना अल्प होगी एवं सुख दुख में उनका ध्यान कम ही रखेंगी। अपने उग्रस्वभाव से देवर एवं ननद भी उनको विशेष सम्मान एवं सहयोग प्रदान नहीं करेंगे जिससे पारिवारिक सुख शांति प्रभावित होगी।

व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य में साझेदारी के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तथा



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

इससे हानि की संभावना रहेगी अतः साझेदारी की आपको यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

Girl

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में मीन राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है तथा शुक्र भी अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में ही स्थित है सामान्यतया मीन राशि की सप्तम भाव में स्थिति से जातक का सहयोगी सुशील धनवान एवं वात कफ प्रवृत्ति युक्त एवं आस्तिक होता है। शुक्र के प्रभाव से वह शिक्षित आधुनिक विचारों से युक्त एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रति विशेष आकर्षण रखता है।

अतः इसके प्रभाव से आपके पति बुद्धिमान शिक्षित एवं सुशील स्वभाव की व्यक्ति होंगे। वह आधुनिक विचारों के व्यक्ति होंगे तथा भौतिकता के प्रति उनके मन में प्रबल आकर्षण होगा। साथ ही सांसारिक कार्य कलापों में वह दक्षता का परिचय देंगे एवं अपने उत्कृष्ट कार्य कलापों से सभी जनों को प्रभावित रखेंगे। उच्चस्थ शुक्र के प्रभाव से उनके कर्तव्य परायणता के भावना की भी प्रबलता होगी एवं परिवार तथा समाज के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने में प्रवृत्त रहेंगे।

आपके पति आकर्षक सुंदर एवं अत्यंत ही गौरवर्ण की व्यक्ति होंगे तथा कद मध्यम होगा। उनका शारीरिक सौन्दर्य दर्शनीय होगा एवं शरीर सुडौल एवं पुष्टता से युक्त होगा इससे उनकी सुंदरता तथा व्यक्तित्व के आकर्षण में वृद्धि होगी। संगीत एवं कला के प्रति उनका प्रबल आकर्षण रहेगा एवं पाश्चात्य संस्कृति का भी अनुपालन करेंगे। इसके अतिरिक्त सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं के संग्रह में भी प्रवृत्त रहेंगे।

आपका विवाह किसी महिला संबंधी के सहयोग से सम्पन्न होगा। उच्चस्थ शुक्र के प्रभाव से आप स्वेच्छा से प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा एवं एक दूसरे के प्रति प्रबल समर्पण एवं प्रेम की भावना होगी। सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य आप एक दूसरे की सलाह तथा सहमति से करेंगे जिससे परस्पर विश्वास एवं समानता का भाव रहेगा।

आपका विवाह किसी समृद्ध परिवार में होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ होंगे। विवाह के बाद सास ससुर से आपके अच्छे संबंध रहेंगे तथा जीवन में उनसे नैतिक तथा आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। आप भी उन्हें यथोचित मान सम्मान प्रदान करेंगी जिससे आपस में विश्वास तथा संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

सास ससुर के प्रति आपके पति का सेवा भाव रहेगा तथा सुख दुख में पूर्ण ध्यान रखेंगे साले एवं सालियां भी उनके सद्व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे तथा उन्हें वांछित सम्मान एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

व्यापार या महत्वपूर्ण कार्यों में साझेदारी के लिए स्थिति उत्तम रहेगी तथा साझेदारी से विशेष लाभ होगा एवं परस्पर विश्वास का भाव भी रहेगा।



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

व्यवसाय, पिता एवं सामाजिक स्तर

Boy

आपके जन्म समय में दशमभाव में कुम्भ राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है। साथ ही लग्नेश शुक्र भी दशम भाव में ही स्थित है। कुम्भ राशि वायुतत्व एवं शुक्र जलतत्व युक्त ग्रह है। अतः इसके प्रभाव से आपको व्यवसाय श्रमसाध्य होगा परन्तु बौद्धिक एवं मानसिक क्रियाओं की भी प्रमुखता होगी तथा स्वपरिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित उन्नति एवं सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में स्थायित्व रहेगा एवं परिवर्तन की संभावनाएं कम ही होंगी।

लग्नेश शुक्र की दशमभाव में स्थिति के प्रभाव से आपकी आजीविका का क्षेत्र कला, संगीत, सिनेमा, दूरदर्शन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, न्याय विभाग तथा न्यायधीश वकील या न्यायालयीय कर्मचारी, सचिव सलाहकार, फिल्म निदेशक या कलाकार हो सकता है। यदि आप उपरोक्त विभागों या क्षेत्रों में अपना आजीविका संबंधी कार्य प्रारंभ करेंगे तो इनमें आपको वांछित उन्नति एवं सफलता प्राप्त होगी तथा भविष्य के लिए भी उन्नति मार्ग प्रशस्त होंगे। अतः अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको इन्हीं क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

व्यापारिक क्षेत्र में आपके लिए चांदी, सोना, रत्न आदि का व्यापार, चतुष्पाद या वाहन संबंधी क्रय-विक्रय, आलंकारिक एवं मूल्यवान वस्त्रों का व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री तथा रेशमी या अन्य वस्त्रों का आयात निर्यात तथा मूल्यवान मदिरा आदि का व्यापार आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप इन पदार्थों या क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आपको इच्छित मात्रा में धनार्जन होगा तथा उन्नति के मार्ग में अग्रसर होंगे।

लग्नेश की दशम भाव में स्थिति के प्रभाव से जीवन में आपको विशिष्ट मान सम्मान तथा पद की प्राप्ति होगी जिससे समाज में आपके मान प्रतिष्ठा एवं यश की अभिवृद्धि होगी तथा सभी सामाजिक लोग आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक या धार्मिक प्रतिष्ठानों से भी आपका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा एवं इनमें पदाधिकारी के रूप में आप कार्य करेंगे। शुक्र की नैसर्गिता शुभता के प्रभाव से आपको बिना किसी विलम्ब एवं व्यवधान के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलेगी जिससे आपको मानसिक सन्तुष्टि मिलेगी।

नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र के प्रभाव से आपके पिता आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, बुद्धिमान शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति होंगे तथा समाज में उनका प्रभुत्व रहेगा फलतः सभी लोग उन्हें वांछित मान सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही अन्य जनों की भलाई के कार्यों में भी उनकी रुचि होगी। आपके प्रति उनका पूर्ण स्नेह एवं वात्सल्य का भाव होगा तथा शिक्षा दीक्षा के प्रति पूर्ण ध्यान रखेंगे। आपके कार्य क्षेत्र की उन्नति में उनका विशेष योगदान होगा तथा उनके प्रभाव से भी आपको इच्छित सफलता एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही पिता के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान की भावना होगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी तत्पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com

आप दोनों का परस्पर उत्तम सामंजस्य रहेगा एवं संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी।

Girl

आपके जन्म समय में दशम भाव में मिथुन राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है। साथ ही बृहस्पति भी दशम भाव में ही स्थित है। मिथुन राशि एवं बृहस्पति ग्रह दोनों वायु तत्व प्रधान है। अतः इनके प्रभाव से आपका कार्यक्षेत्र बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया प्रधान होगा तथा श्रमसाध्य के भाव की इसमें न्यूनता होगी। साथ ही आप किसी स्वतंत्र कार्य करने की इच्छुक होंगी तथा इसमें सामयिक परिवर्तन भी करेंगी जिससे वांछित लाभ के प्रबल योग बनेंगे।

बृहस्पति की दशम भाव में स्थिति के प्रभाव से आपके लिए आजीविका संबंधी क्षेत्र शिक्षक या व्याख्याता, धर्मोपदेशक प्रोफेसर, वकील, न्यायधीश, बैंक अधिकारी, शेयर ब्रोकर, सरकारी विभाग में सचिव, सलाहकार तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्तम एवं अनुकूल रहेंगे। इन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको वांछित उन्नति एवं सफलता की प्राप्ति होगी तथा अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों से सुरक्षित रहेंगे। अतः यदि आप आजीविका क्षेत्र में वांछित सफलता तथा प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उपरोक्त क्षेत्रों में ही अपनी आजीविका का चयन करना चाहिए।

व्यापारिक क्षेत्र में आपके लिए सुवर्ण आदि धातु व्यापार, शेयर क्रय विक्रय का कार्य, वित्तीय संस्था द्वारा या ब्याज द्वारा आप वांछित लाभ एवं धन अर्जित करने में समर्थ होंगी। इसके साथ ही कम्पनी के स्वामित्व, वकील का स्वतंत्र व्यवसाय तथा किसी संस्था के स्वामित्व से भी आपको इच्छित लाभ एवं धन की प्राप्ति होगी। अतः यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता बिना किसी समस्याओं एवं व्यवधानों के प्राप्त करना चाहती हैं तो उपरोक्त क्षेत्रों में ही व्यापार का प्रारंभ करना चाहिए।

दशम भाव में बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जीवन में आपको इच्छित मान प्रतिष्ठा एवं सम्मान की प्राप्ति होगी तथा किसी उच्चाधिकार प्राप्त पद को अर्जित करने में भी सफल होंगी। समाज में आप एक प्रभावशाली महिला होंगी तथा सभी लोग आपको वांछित आदर प्रदान करेंगे। साथ ही समाज में आपकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक व्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप किसी सामाजिक या शैक्षणिक संस्था में किसी सम्मानित पदाधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा मानसिक सन्तुष्टि मिलेगी।

दशम भाव में बृहस्पति के प्रभाव से आपके पिता जी शिक्षित विद्वान एवं प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तथा सामाजिक जनों के मध्य उनका पूर्ण आदर रहेगा एवं लोगों को वे अपना सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। आपके प्रति उनका पूर्ण वात्सल्य का भाव होगा तथा शिक्षा का उच्चस्तर पर समुचित प्रबंध करेंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा सफलता में उनका प्रमुख योगदान होगा तथा इससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आप भी अपने बुद्धिमतापूर्ण उत्तम कार्य कलापों से पिता के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगी। आपके आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी तथा समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरे की सलाह एवं सहयोग से सम्पन्न करेंगे साथ ही सैद्धान्तिक तथा वैचारिक समानता भी विद्यमान होगी।




HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918


Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2024




Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2024



Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2025



Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2025




HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918


Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2026




Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2026



Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2027



Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2027




HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918


Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com


Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2028




Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2028



Boy
एस्ट्रोग्राफ - 2029



Girl
एस्ट्रोग्राफ - 2029



HoroscopeCart

Mobile / WhatsApp : +91-7835830918

Email : contact@horoscopecart.com

Website : www.horoscopecart.com